

# 神奈川県高校生等奨学給付金（通常給付・国公立）

授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金(申請必要)  
生活保護(生業扶助)受給世帯・住民税所得割非課税世帯が対象

## 1 申請できる方 令和6年7月1日現在で次の要件のすべてを満たす世帯

- (1) 保護者の方が神奈川県内に住所を有していること。
- 神奈川県外在住の場合は、お住まいの都道府県へお問合せください。
  - 都道府県によって申請期限が異なりますので、お早めに(できれば7月中旬に)ご確認ください。
- (2) 生活保護(生業扶助)受給世帯または住民税所得割非課税世帯であること。
- 生活保護(生業扶助)受給世帯(以下「生活保護世帯」という。)の確認は、令和6年7月1日現在の生業扶助の措置状況で確認します。
  - 住民税所得割非課税世帯(以下「非課税世帯」という。)の確認は、保護者全員の令和6年度の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額で確認します。  
※ 海外赴任等で日本国内に住所を有しないため非課税である場合は対象外となります。  
※ 定額減税後の所得割額で審査を行います。
- (3) 対象となる高校生等が高等学校等に在籍していること。
- 高校生等とは、就学支援金、学び直し支援金又は専攻科支援金の受給資格を有する生徒です。
  - 高校生等が児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)に入所又は里親に養育されており、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合は対象外となります。
  - 高等学校等とは、高等学校(別科を除く。)、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものをいいます。  
※ 高等学校及び中等教育学校(後期課程)の専攻科を含みます。  
※ (1)~(3)に該当する方で、就学支援金や奨学金を申請した方も対象となる場合があります。

## 2 申請期間 令和6年7月1日(月)~令和6年12月13日(金)

- 書類審査がありますので、お早めにご提出ください。
- 高校生等を複数扶養している場合は、それぞれの高校生等について申請が必要です。

## खानागावा प्रान्तका उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति लाभ रकम (नियमित लाभ भुक्तानी / सरकारी वा सार्वजनिक विद्यालय)

अध्यापन शुल्क बाहेकको शिक्षण खर्चमा टेवा पुर्‍याउने फिर्ता गर्नु नपर्ने लाभ रकम (आवेदन आवश्यक)  
जीवनयापन संरक्षण (निर्वाह सहायता) प्राप्त गरिरहेका घरपरिवार वा बसोबास कर आय दरमा कर नलागेका  
घरपरिवार दायरामा पर्ने

### 1 आवेदन दिन सक्ने व्यक्ति सन् 2024 जुलाई 1 तारिखको मितिमा निम्न आवश्यक सबै शर्त पुरा गरेका घरपरिवार

#### (1) संरक्षक व्यक्तिको खानागावा प्रान्त भित्र ठेगाना दर्ता भएको हुनुपर्ने।

- खानागावा प्रान्त बाहिर बसोबास भए, उक्त बसोबास रहेको प्रान्तमा सोधपुछ गर्नुहोला।
- प्रान्त अनुसार आवेदनको समय सीमा फरक पर्ने हुनाले, सक्दो चाँडो (सकेमा जुलाई भित्र) निश्चय गरिसक्नुहोला।

#### (2) जीवनयापन संरक्षण (निर्वाह सहायता) प्राप्त गरिरहेका घरपरिवार अथवा बसोबास कर आय दरमा कर नलागेका घरपरिवार हुनुपर्ने।

- जीवनयापन संरक्षण (निर्वाह सहायता) प्राप्त गरिरहेका घरपरिवार (तल “जीवनयापन संरक्षण प्राप्त घरपरिवार” भनिने।) निश्चय गर्दा सन् 2024 जुलाई 1 तारिखको मितिमा भएको निर्वाह सहायता सम्बन्धी उपचार अवलम्बन स्थितिबाट निश्चय गरिनेछ।

- बसोबास कर आय दरमा कर नलागेका घरपरिवार (तल “कर लागु नभएका घरपरिवार” भनिने।) निश्चय गर्दासंरक्षक सबैको आर्थिक वर्ष सन् 2024को प्रान्तीय कर आय दरको राशि र स्थानीय कर आय दरको राशिबाट निश्चय गरिनेछ।

\* विदेशमा काम गर्ने जस्ता कारणले जापानमा ठेगाना नभएर कर मुक्त भएमा दायरा भन्दा बाहिर पर्नेछ।

\* निश्चित रेटको कर न्यूनिकरण पाए पश्चात्को आय दर राशि हरेर समीक्षा गरिनेछ।

#### (3) दायरामा पर्ने उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय तहमा भर्ना रहेको हुनुपर्ने।

- उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू भन्नाले, भर्ना टेवा रकम, पुनर्अध्ययन टेवा रकम अथवा एडभान्स पाठ्यक्रम टेवा रकम प्राप्त गर्ने योग्यता धारण गरेका विद्यार्थी हुन्।

- उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू बाल कल्याण सुविधा गृह (मातृशिशु जीवनयापन टेवा सुविधा गृह बाहेक।) मा छिर्ने अथवा धर्म-बुवा-आमाले पालन पोषण गरिरहेको र, अवलोकन भ्रमण अथवा विशेष प्रशिक्षण खर्चको व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा छानिने दायरामा पर्दैनन्।

- उच्च माध्यमिक विद्यालय तह भन्नाले, उच्च माध्यमिक विद्यालय (भिन्न-छोटो-कोर्ष बाहेक।), माध्यमिक तह शिक्षण विद्यालय (उत्तरार्द्धको पाठ्यक्रम)भनेको, उच्च माध्यमिक भोकेसनल विद्यालय(पहिलो ग्रेड देखि तेस्रो ग्रेड सम्म), उन्नत व्यावसायिक विद्यालय एवम् हरेक प्रकारका विद्यालय मध्ये उच्च माध्यमिक विद्यालयको पाठ्यक्रमको प्रकारसँग मिल्दोजुल्दो पाठ्यक्रम राखेको विद्यालय हो।

\* उच्च माध्यमिक विद्यालय एवम् माध्यमिक तह शिक्षण विद्यालय (उत्तरार्द्धको पाठ्यक्रम)को एडभान्स पाठ्यक्रम समावेश हुन्छ।

\* (1) - (3)मा पर्ने महानुभाव जसले भर्ना टेवा रकम वा छात्रवृत्ति रकमको लागि आवेदन दिनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि दायरामा पर्ने हुनसक्छ।

### 2 आवेदन अवधि: सन् 2024 जुलाई 1 तारिख (सोम) देखि सन् 2024 डिसेम्बर 13 तारिख (शुक्र) सम्म

- कागजात परीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले चाँडै पेस गर्नुहोला।
- उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू धेरै सङ्ख्यामा आश्रित रहेको भए, हरेक विद्यार्थीको लागि आवेदन दिन आवश्यक पर्छ।

### 3 支給時期 申請した月の2箇月後の末頃を予定 (例)7月申請⇒9月末頃支給

- 申請が集中した場合は、支給時期が遅くなる場合があります。
- 非課税世帯の方で、個人番号(マイナンバー)を利用した収入状況確認を希望した場合、非課税証明書等を利用した場合よりも支給時期が更に2～3週間程度遅くなる可能性があります。
- ※ 専攻科の高校生等は個人番号(マイナンバー)を利用できません。

### 4 申請書提出先 令和6年7月1日に在学する(していた)学校の事務室

- 神奈川県外の国公立学校に在学の場合は、申請書裏面に学校の証明を受けた後、直接、神奈川県教育委員会財務課高校奨学金グループ 〒231-8588 横浜市中区日本大通1-1-1 045-210-8251(直通)へ申請してください。

### 5 支給条件 授業料以外の教育費に係る費用に対して支給します

- 授業料以外の教育費に係る費用に対して支給しますので、この費用に未済がある場合は、奨学給付金支給額を未済額に充当します。
- ※ 授業料以外の教育費の例:教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学用品費、修学旅行積立金等
- 授業料以外の教育費に係る費用で未済がないことについて、学校長の確認が必要となります。

### 6 支給額 世帯区分及び在学する学校の課程により支給額が異なります 「対象者及び給付額確認シート」を参照してください

- 対象となる高校生等1人あたりの支給額(年額)

世帯区分		全日制・定時制	通信制	専攻科
生活保護世帯		32,300円		
非課税世帯	15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹が	いない	50,500円	50,500円
		いる	143,700円	

### 3 भुक्तानी समय: आवेदन दिएको दोस्रो महिनाको मसान्त तिरको योजना (जस्तै) जुलाईमा आवेदन ⇒ सेप्टेम्बर मसान्त तिर भुक्तानी

- एकै चोटि धेरै आवेदन एकत्रित भएको खण्डमा, भुक्तानी समय ढिलो हुन सक्छ।
  - कर मुक्त घरपरिवारको महानुभाव जसले व्यक्तिगत नम्बर (माइनम्बर) उपयोग मार्फत आम्दानी अवस्था निश्चय गराउन चाहनु हुन्छ भने, कर लागु नभएको प्रमाणपत्र आदि उपयोग गरेको भन्दा पनि लाभ भुक्तानी समय अझै 2 ~ 3 हप्ता जति ढिलो हुने सम्भावना रहन्छ।
- \*एडभान्स पाठ्यक्रमका उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले व्यक्तिगत नम्बर (माइनम्बर) प्रयोग गर्न मिल्दैन।

### 4 आवेदन पत्र पेस गर्ने स्थान सन् 2024 जुलाई 1 तारिखमा अध्ययनरत विद्यालयको कार्यकक्ष

- खानागावा प्रान्त बाहिरको सरकारी/सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत भएमा, आवेदन पत्रको पछाडि पट्टि विद्यालयबाट प्रमाणीकरण प्राप्त गरे पश्चात्, सिधै,  
खानागावा प्रान्तीय शिक्षा परिषद् वित्तीय शाखा उच्च माध्यमिक तहको छात्रवृत्ति रकम ग्रुप  
〒231-8588 Yokohama-Shi Naka-Ku, Nihon Odori 1 ☎045-210-8251 (डाइरेक्ट लाइन)मा आवेदन दिनुहोला।

### 5 भुक्तानी शर्त: अध्यापन शुल्क बाहेकको शिक्षण खर्चमा लाग्ने लागत प्रति भुक्तानी गरिने

- अध्यापन शुल्क बाहेकको शिक्षण खर्चमा लाग्ने लागत प्रति भुक्तानी गरिने भएकोले, यदि कुनै बक्यौता बाँकी छ भने, छात्रवृत्ति लाभ रकमको लाभ स्वरूप भुक्तानी गरिने यस रकमले उक्त बक्यौतामा परिपूरण गरिनेछ।
- \* अध्यापन शुल्क बाहेकको शिक्षण खर्चको उदाहरण : पाठ्यपुस्तक खर्च, पाठ्यसामग्री खर्च, अध्ययनका लागि चाहिने सामानको खर्च, विद्यालय आवतजावतमा चाहिने सामानको खर्च, अतिरिक्त क्रियाकलापको खर्च, विद्यार्थी समिति खर्च, पि.टि.ए. समिति खर्च, विद्यालय भर्नाको लागि चाहिने सामानको खर्च, शैक्षिक भ्रमणको बचत रकम आदि
- अध्यापन शुल्क बाहेकका शिक्षण खर्चमा पर्ने रकममा बक्यौता बाँकी नभएका सम्बन्धमा, प्रधानाध्यापकको पुष्टि आवश्यक पर्नेछ।

### 6 लाभ भुक्तानी राशि

घरपरिवारको वर्गीकरण एवम् अध्ययनरत विद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार भुक्तानी राशि फरक पर्नेछ "दायरामा पर्ने व्यक्ति एवम् लाभ राशि पुष्टि पत्र" हेर्नुहोस्।

- दायरामा पर्ने उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू 1 जना बराबरको भुक्तानी राशि (वार्षिक राशि)

घरपरिवार वर्गीकरण			पूर्णकालीन प्रणाली/निर्धारित समय प्रणाली	सञ्चार प्रणाली	एडभान्स पाठ्यक्रम
जीवनयापन संरक्षण प्राप्त घरपरिवार			32,300 येन		50,500 येन
कर लागु नभएको घरपरिवार	15 वर्ष वा सो भन्दा माथि, 23 वर्ष भन्दा मुनिका आश्रित दाजुभाइ दिदी-बहिनी	नभएको	122,100 येन	50,500 येन	
		भएको	143,700 येन		

## 7 提出書類

申請前に申請内容の誤りがないかを確認してください。

不備があると、支給が遅くなる場合があります。

### (1) 生活保護世帯・非課税世帯共通

#### ① 高校生等奨学給付金受給申請書

#### ② 振込先口座を確認できる書類(預貯金通帳等)

※ 振込先口座の金融機関名、支店名、預金種別(普通口座又は貯蓄口座)、口座番号及び口座名義人(カナ)がわかる部分の通帳のコピー等を提出してください(通帳の表紙の裏に記載されていることが多いです。)

### (2) 生活保護世帯の方 ※専攻科の高校生等を除く。(専攻科の高校生等は(3)参照)

(1)の書類に加えて、令和6年7月1日現在、生業扶助(高等学校等就学費)を受けていることがわかる次の①②の証明書のうちいずれかを提出してください。

#### ① 生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(第2号様式)

※ 学校またはホームページから様式を入手し、福祉事務所で証明を受けてください。

#### ② 生活保護受給証明書の原本又はコピー

申請の対象となる高校生等について、令和6年7月1日現在、生業扶助が支給されていることが記載されている証明書を福祉事務所で発行してもらってください。

このお知らせを担当のケースワーカーに確認いただき、必要な書類の発行を依頼していただくと手続きが円滑に進みます。

※ 専攻科の高校生等は非課税世帯であることを確認するため、上記の書類ではなく(3)に記載の書類を提出していただきます。

## 7 पेस गर्नुपर्ने कागजात

आवेदन दिनु अगाडि आवेदनका विषयवस्तुमा भुलचुक नभएको निश्चय गर्नुहोला।  
त्रुटि भएमा लाभ भुक्तानी ढिलो हुनसक्छ।

### (1) जीवनयापन संरक्षण प्राप्त घरपरिवार/कर लागु नभएको घरपरिवारको लागि साझा

① उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति लाभ रकम प्राप्त गर्ने आवेदन पत्र

② रकमान्तर गर्ने खाता पुष्टि हुने कागजात (बचत पासबुक आदि)

\* रकमान्तर गर्ने खाता भएको वित्तीय निकायको नाम, शाखाको नाम, खाताको प्रकार (साधारण खाता वा बचत खाता), खाता नं. एवम् खाताको नाम (काताकानामा) लेखिएको भागको पासबुकको फोटोकपीहरू पेस गर्नुहोला (धेरै जसो पासबुकको बाहिरी पानाको पछाडि उल्लेख हुने गर्छ)।

### (2) जीवनयापन संरक्षण प्राप्त घरपरिवारको व्यक्ति \*एडभान्स पाठ्यक्रमको उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको बाहेक। (एडभान्स पाठ्यक्रमको उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले (3) हेर्ने)

(1)को कागजात लगायत, सन् 2024 जुलाई 1 तारिखको मितिमा, निर्वाह सहायता (उच्च माध्यमिक विद्यालय तहको अध्ययन खर्च) प्राप्त गरिरहेको थाहा हुने निम्न ①②को प्रमाणपत्र मध्ये कुनै एक पेस गर्नुहोला।

① जीवनयापन संरक्षण ऐन (सन् 1950को कानूनको 144 औं अङ्क) 36 औं दफाको प्रावधान अनुसार निर्वाह सहायता (उच्च माध्यमिक विद्यालय तहको अध्ययन खर्च) प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र (ढाँचा फाराम नं 2)

\* विद्यालयहरू अथवा वेबसाइटबाट ढाँचा फाराम लिएर, कल्याणकारी कार्यालयबाट प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नुहोस्।

② जीवनयापन संरक्षण प्राप्त गरिरहेका प्रमाणपत्रको सक्कल अथवा फोटोकपी

आवेदनको दायरामा पर्ने उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको सम्बन्धमा, सन् 2024 जुलाई 1 तारिखको मितिमा, निर्वाह सहायता भुक्तानी गरिएको उल्लिखित प्रमाणपत्र, कल्याणकारी कार्यालयबाट जारी गराइ पाउनुहोस्।

यस सूचना कस-वक्कर इन्चार्जलाई देखाएर, आवश्यक कागजात जारां गन अनुरोध गर्नुभयां भन सहज तरिकाले प्रक्रिया अधि बढ्छ।

\* एडभान्स पाठ्यक्रमको उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले कर लागु नभएको घरपरिवार हुन् भनी पुष्टि गर्नको लागि, माथि उल्लेखित कागजात नभएर (3)मा लेखिएको कागजात पेस गर्नुपर्ने छ।

### (3) 非課税世帯の方

(1) の資料に加えて、次の資料を提出してください。

令和6年度の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が0円(非課税)であることが確認できる次のア～ウのいずれか(保護者全員分の提出が必要)

ア 令和6年度 市町村民税・県民税 非課税証明書の原本又はコピー

イ 令和6年度 市町村民税・県民税 特別徴収税額通知書のコピー

ウ 令和6年度 市町村民税・県民税 税額決定・納税通知書のコピー

【対象となる高校生等が神奈川県内の公立学校に在学の場合のみ】

- ◆ 就学支援金又は学び直し支援金の申請(届出)時に、オンラインで申請している場合又は、紙での申請時に、保護者全員の個人番号(マイナンバー)カードの写し等をご提出いただいている場合は、上記書類の提出を省略し、個人番号を利用して所得割額の確認を行うことが可能です。
- ◆ 詳しくは「非課税世帯の方で個人番号(マイナンバー)を利用される方へ」をご覧ください。

神奈川県外から転入された場合等、必要に応じて追加書類をお願いする場合があります。

【対象となる高校生等が神奈川県内の公立学校に在学の場合のみ】

非課税世帯の方で個人番号(マイナンバー)を利用される方へ

- ◆ 非課税世帯の方は、個人番号(マイナンバー)を利用することで、7(3)に記載の「① 令和6年度の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が0円(非課税)であることが確認できる書類」の提出を省略することができます。
- ◆ 個人番号(マイナンバー)を利用するためには、就学支援金又は学び直し支援金の申請(届出)時に、オンラインで申請している※1か、紙での申請時に、保護者全員の個人番号(マイナンバー)カードの写し等※2を提出している必要があります。

※1 オンライン申請のうち、「自己情報(マイナポータル連携)により税額を登録」を選択した方は、7月中にe-Shienへログインし、マイナポータルから税情報を取得し、e-Shienへ再度登録する必要があります。

※2 個人番号カードのコピー、個人番号通知カードのコピー、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書の原本又はコピー

- ◆ 専攻科の高校生等は個人番号(マイナンバー)を利用できません。
- ◆ 個人番号(マイナンバー)をご利用いただいても税情報が取得できない場合があります。(税の申告を行っていない方など)

その場合は、あらためて非課税証明書等をご提出いただきますのでご了承ください。

## 8 申請書(紙)での申請の場合の注意点

- 申請者が主たる生計維持者の方の場合又は、非課税世帯の方で、申請対象となる高校生等以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合、申請書表面の「【2】扶養親族の状況及び扶養誓約について」の誓約欄及び扶養者欄に必ずチェックを入れてください。
- 扶養状況以外の事項について、申請書裏面に「【5】誓約・委任欄」がありますので、内容を必ず確認していただき、署名してください。

### (3) कर लागु नभएको घरपरिवारको व्यक्ति

(1) को दस्तावेज लगायत, निम्न दस्तावेज पेस गर्नुहोला।

आर्थिक वर्ष सन् 2024 को प्रान्तीय कर आय दरको राशि र स्थानीय कर आय दरको राशिको योगफल शून्य येन (कर लागु नभएको) भएको पुष्टि हुने निम्न अ) - इ) मध्ये कुनै एक (संरक्षक सबैजनाले पेस गर्नुपर्ने)

अ) आर्थिक वर्ष सन् 2024 स्थानीय कर/प्रान्तीय कर लागु नभएको प्रमाणपत्रको सक्कल अथवा फोटोकपी

आ) आर्थिक वर्ष सन् 2024 स्थानीय कर/प्रान्तीय कर, विशेष असुली कर रकम सूचना पत्रको फोटोकपी

इ) आर्थिक वर्ष सन् 2024 स्थानीय कर/प्रान्तीय कर, कर राशि निर्णित/ कर दाखिला सूचनापत्रको फोटोकपी

[दायरामा पर्ने उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू खानागावा प्रान्त भित्रको सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत भएको अवस्थामा मात्र]

- ◆ भर्ना टेवा रकम अथवा पुनर्अध्ययन टेवा रकमको आवेदन (निवेदन दर्ता) गर्दा, अनलाइनबाट आवेदन दिएको खण्डमा वा, कागज मार्फत आवेदन दिँदा, अभिभावक सबैजनाको व्यक्तिगत नम्बर (माइनम्बर) कार्डको प्रतिलिपिहरू पेस गरेको खण्डमा, माथि उल्लेखित कागजात पेस नगरिकनै, व्यक्तिगत नम्बर प्रयोग गरेर आय दरको राशि निश्चय गर्न मिल्ने हुन जान्छ।
- ◆ विस्तृतमा "कर लागु नभएको घरपरिवारका व्यक्तिगत नम्बर (माइनम्बर) प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू प्रति" हेर्नुहोला।

**खानागावा प्रान्त बाहिरबाट बसाइँ आएको हो भने आवश्यकता अनुसार थप कागजात अनुरोध गरिने हुन सक्छ।**

**[दायरामा पर्ने उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू खानागावा प्रान्त भित्रको सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत भएको अवस्थामा मात्र]**

**कर लागु नभएको घरपरिवारका व्यक्तिगत नम्बर (माइनम्बर) प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू प्रति**

- ◆ कर लागु नभएको घरपरिवारका व्यक्तिले, व्यक्तिगत नम्बर (माइनम्बर) प्रयोग गर्नाले, 7(3)मा उल्लेखित "① आर्थिक वर्ष सन् 2024को प्रान्तीय कर आय दरको राशि र स्थानीय कर आय दरको राशिको योगफल शून्य येन (कर लागु नभएको) भएको पुष्टि हुने कागजात" पेस नगर्न पनि सक्ने छन्।
- ◆ व्यक्तिगत नम्बर (माइनम्बर) प्रयोग गर्नका लागि, भर्ना टेवा रकम अथवा पुनर्अध्ययन टेवा रकमको आवेदन (निवेदन दर्ता) गर्दा, अनलाइनबाट आवेदन गर्दा \*1, अथवा कागज मार्फत आवेदन दिँदा, अभिभावक सबैजनाको व्यक्तिगत नम्बर (माइनम्बर) कार्डको प्रतिलिपिहरू \*2 पेस गरेको हुनुपर्नेछ।
- \*1 अनलाइन आवेदन मध्ये, "आफ्नो जानकारी (link with myna portal) द्वारा कर रकम रेकर्ड" चयन गर्नुभएको महानुभावले, जुलाई भित्रमा e-Shien मा लग-इन गरेर, myna portal बाट कर जानकारी प्राप्त गरी, e-Shien तर्फ पुनः रेकर्ड राख्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ।
- \*2 व्यक्तिगत नम्बर कार्डको फोटोकपी, व्यक्तिगत नम्बर सूचना कार्डको फोटोकपी, व्यक्तिगत नम्बर उल्लिखित बसोबास पत्रको प्रतिलिपि, व्यक्तिगत नम्बर भएको बसोबास तथ्य उल्लिखित प्रमाणपत्रको सक्कल अथवा फोटोकपी
- ◆ एडभान्स पाठ्यक्रमका उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले व्यक्तिगत नम्बर (माइनम्बर) प्रयोग गर्न मिल्दैन।
- ◆ व्यक्तिगत नम्बर (माइनम्बर) प्रयोग गरेपनि कर सूचना प्राप्त गर्न नसकिने हुनसक्छ। (कर घोषणा नगरेका व्यक्तिहरू) उक्त अवस्थामा, पुनः कर लागु नभएको प्रमाणपत्रहरू पेस गर्नुपर्ने भएकोले कृपया बुझी दिनुहोला।

## 8 आवेदन पत्र (कागज) मार्फत आवेदन दिँदाको सावधानीका बुँदा

- मुख्य जीविकोपार्जन निर्वाहकर्ता नै आवेदक हुनुहुन्छ अथवा कर मुक्त घरपरिवारको व्यक्ति जसले, आवेदनको दायरामा पर्ने उच्च मा.वि तहका विद्यार्थीहरू बाहेकको 15 वर्ष (माध्यमिक तहको विद्यार्थी बाहेक।) देखि 23 वर्ष भन्दा कम उमेरका पालनपोषण गरिरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने, आवेदन पत्रको अगाडिको सतहको " [2] पालनपोषण गर्ने नजिकको नातेदारको अवस्था एवम् पालनपोषण कबुलियतनामा बारेमा"को कबुलियतनामा स्तम्भ एवम् पालनपोषण कर्ता स्तम्भमा अवश्यपनि ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्।
- पालनपोषण अवस्था बाहेकको बुँदाहरूको हकमा, आवेदन पत्रको पछाडिको सतहमा "[5] कबुलियतनामा/ वारेसनामा स्तम्भ" भएकोले, विषयवस्तु निश्चय गरेर मात्र हस्ताक्षर गर्नुहोस्।



こうこうせいとうしょうがくきゅうふきん つうじょうきゅうふ たいしょうしやおよ きゅうふがくかくにん  
高校生等奨学給付金(通常給付)対象者及び給付額確認シート

उच्च माध्यमिक तहको विद्यार्थीहरूका छात्रवृत्ति लाभ रकम (नियमित लाभ भुक्तानी)को दायरामा पर्ने व्यक्ति एवम् लाभ राशि पुष्टि पत्र

Q 1. れいわ ねん (2024年) ねん 7月1日現在、がっ 保護者の方はほごしや 神奈川県内にお住まいですか?  
2024 साल जुलाई 1 तारिखमा, संरक्षक व्यक्ति खानागावा प्रान्त भित्र बसोबास गरिरहनुभएको छ?  
छ→Q2, छैन→A1



Q 2. れいわ ねん (2024年) ねん 7月1日現在、こうこうせいとう 高校生等はがっこう 学校にざいせき 在籍していますか?  
2024 साल जुलाई 1 तारिखमा, उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा नामाङ्कन गर्नुभएको छ?

छ→Q3, छैन→A2



Q 3. れいわ ねん (2024年) ねん 7月1日現在、こうこうせいとう 高校生等はせいかつほご 生活保護 (生業扶助) を受けていますか?  
2024 साल जुलाई 1 तारिखमा, उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले जीवनयापन संरक्षण (निर्वाह सहायता) प्राप्त गरिरहनुभएको छ?

छ→A3, छैन→Q4



Q 4. ほごしやぜんいん 保護者全員のれいわ ねん (2024年) ど 度のとどうふけんみんぜいしよとくわりがく 都道府県民税所得割額としちやうそんみんぜいしよとくわりがく 市町村民税所得割額のがっさんかく 合算額は0円 (非課税) ですか?

संरक्षक सबै जनाको आर्थिक वर्ष 2024 को 'प्रान्तवासी कर आय दर र स्थानीयवासी कर आय दरको योगफल शुन्य येन (कर नलागेको) छ?

छ→Q5, छैन→A4



Q 5. つうしんせい 通信制またはせんこうか 専攻科のこうこうせいとう 高校生等はいますか?

सञ्चार प्रणाली अथवा एडभान्स पाठ्यक्रम भएका उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू छन्?

छ→A5, छैन→Q6



Q 6. こうこうせいとういがい 高校生等以外にさい 15歳 (中学生を除く。) いじやう 以上さいみまん 23歳未満のふやう 扶養されているきやうだいしまい 兄弟姉妹がいますか?

उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू बाहेक 15 वर्ष (माध्यमिक तहको विद्यार्थी बाहेक) वा सो भन्दा माथि 23 वर्ष भन्दा मुनिको आश्रित दाजुभाइ दिदीबहिनी छन्?

छ→A6, छैन→Q7



Q 7. ふたりいじやう 2人以上のこうこうせいとう 高校生等がいますか?

दुई जना वा सो भन्दा बढि उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ?

छ→A7, छैन→A8

- A1.** お住まいの都道府県に申請いただきます。申請期間等の詳細は、お住まいの都道府県にお問合せください。  
आपनो बसोबास रहेको प्रान्तहरूमा आवेदन दिनुहोला।  
आवेदन अवधि जस्ता विस्तृत विवरणका लागि, आपनो बसोबास रहेको प्रान्तहरू मै सोधपुछ गर्नुहोस्।
- A2.** 該当しません。(休学又は7月2日以降の入学の場合はお問い合わせください。)  
यस भित्र पर्दैन। (विद्यालय बिदा बसेको भए अथवा जुलाई 2 तारिख पश्चात् विद्यालय भर्ना भएको भए सम्पर्क गर्नुहोला।)
- A3.** 「生活保護受給世帯」の給付額です。専攻科以外 国公立 32,300円 私立 52,600円  
専攻科※ 国公立 50,500円 私立 52,100円  
※ 保護者の方に令和6年度の住民税所得割が課税されている方がいる場合は対象外  
जीवनयापन संरक्षण प्राप्त घरपरिवारको लाभ राशि हो। एडभान्स पाठ्यक्रम बाहेक: सरकारी वा सार्वजनिक 32,300 येन; निजी 52,600 येन एडभान्स पाठ्यक्रम\*: सरकारी वा सार्वजनिक 50,500 येन; निजी 52,100 येन  
\* संरक्षक व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष 2024को बसोबास कर आय दरमा कर लागेको भए दायरा भन्दा बाहिर पर्ने
- A4.** 該当しません。  
यस भित्र पर्दैन।
- A5.** 通信制・専攻科の高校生等については「通信制」「専攻科」の給付額です。  
国公立 50,500円 私立 52,100円  
सञ्चार प्रणाली अथवा एडभान्स पाठ्यक्रम भएका उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको हकमा " सञ्चार प्रणाली " "एडभान्स पाठ्यक्रम भएका" को लाभ राशि हो।  
सरकारी वा सार्वजनिक 50,500 येन निजी 52,100 येन  
通信制・専攻科以外の高校生等がいる場合は「非課税世帯・第2子」の給付額です。  
国公立 143,700円 私立 152,000円  
सञ्चार प्रणाली / एडभान्स पाठ्यक्रम भएका बाहेकको उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू भएको अवस्थामा "कर लागु नभएको घरपरिवार / दोस्रो बच्चा" को लाभ राशि हो। सरकारी वा सार्वजनिक 143,700 येन निजी 152,000 येन
- A6.** 「非課税世帯・第2子」の給付額です。国公立 143,700円 私立 152,000円  
"कर मुक्त घरपरिवार / दोस्रो बच्चा"को लाभ राशि हो। सरकारी वा सार्वजनिक 143,700 येन; निजी 152,000 येन
- A7.** 1人目の高校生等は「非課税世帯・第1子」の給付額です。  
国公立 122,100円 私立 142,600円  
पहिलो एक जना उच्च माध्यमिक तहको विद्यार्थीहरूको हकमा "कर लागु नभएको घरपरिवार / पहिलो बच्चा" को लाभ राशि हो।  
सरकारी वा सार्वजनिक 122,100 येन; निजी 142,600 येन  
2人目以降の高校生等は「非課税世帯・第2子」の給付額です。  
国公立 143,700円 私立 152,000円  
दोस्रो बच्चा उच्च माध्यमिक तहको विद्यार्थीहरू भएको अवस्थामा "कर लागु नभएको घरपरिवार / दोस्रो बच्चा" को लाभ राशि हो।  
सरकारी वा सार्वजनिक 143,700 येन; निजी 152,000 येन
- A8.** 「非課税世帯・第1子」の給付額です。国公立 122,100円 私立 142,600円  
"कर मुक्त घरपरिवार / पहिलो बच्चा"को लाभ राशि हो। सरकारी वा सार्वजनिक 122,100 येन; निजी 142,600 येन